



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

भा.रि.बैं/2012-13/99

संदर्भ : आं०प्रवि.पीसीडी.सं.04/14.01.02/2012-13

2 जुलाई 2012

सभी अनुसूचित बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों और  
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं  
के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

महोदय/महोदय

मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश

वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र के रूप में जारी की जानेवाली एक गैर-जमानती मुद्रा बाज़ार लिखत है जिसे भारत में 1990 में पहली बार जारी किया गया । इसे जारी करने का उद्देश्य यह कि उच्च दर्जे के कार्पोरेट उधारकर्ता अपने अल्पावधि उधारों के स्रोतों का विवधीकरण कर सकें और निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत मुहैया कराया जा सके ।

2. इस विषय पर सभी वर्तमान दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निर्देशों को समाहित करते हुये एक मास्टर परिपत्र सभी बाजार सहभागियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के संदर्भ हेतु तैयार किया गया है । यह उल्लेखनीय है कि यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को उस हद तक समेकित व अद्यतन करता है, जिस हद तक इन परिपत्रों का संबंध वाणिज्यिक पत्र जारी करने के दिशानिर्देशों से है । इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट [www.mastercirculares.rbi.org.in](http://www.mastercirculares.rbi.org.in) पर उपलब्ध कराया गया है ।

भवदीय

(के. के. वोहरा)  
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक यथोक्त

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	3
2.	वाणिज्यिक पत्र के पात्र जारीकर्ता	3
3.	रेटिंग अपेक्षा	3
4.	परिपक्वता	4
5.	मूल्य वर्ग	4
6.	वाणिज्यिक पत्र जारी करने की सीमा और राशि	4
7.	जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आई.पी.ए.)	5
8.	वाणिज्यिक पत्रों में निवेश	5
9.	वाणिज्यिक पत्रों में कारोबार	5
10.	निर्गम के प्रकार	5
11.	डीमैट रूप को वरीयता	5
12.	वाणिज्यिक पत्र का भुगतान	6
13.	आपाती सुविधा	6
14.	निर्गम की प्रक्रिया	6
15.	भूमिका और उत्तरदायित्व	7
16.	दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया	8
17.	वाणिज्यिक पत्र बाजार में चूक	8
18.	कुछ अन्य निर्देशों का लागू न होना	8-9
19.	परिभाषाएँ	
	अनुसूची - I	10-11
	अनुसूची - II	12
	अनुबंध	
	(i) वाणिज्यिक पत्र की चुकोती में दोष	13
	(ii) परिभाषाएँ	14-15
	परिशिष्ट - समेकित परिपत्रों की सूची	16-17

## परिचय

वाणिज्यिक पत्र एक गैर जमानती मुद्रा बाजार लिखत है जिसे वचन-पत्र के रूप में जारी किया जाता है। निजी तौर पर जारी की जाने वाली लिखत के रूप में वाणिज्यिक पत्र भारत में 1990 में प्रारंभ किया गया ताकि उच्च दर्जे के कार्पोरेट उधारकर्ता अपने अल्पावधि उधारों के स्रोतों का विविधिकरण कर सकें और निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत मुहैया कराया जा सके। बाद में प्राथमिक व्यापारियों, अनुषंगी व्यापारियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को भी वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई ताकि वे अपने परिचालनों के लिये अपनी अल्पावधि निधि आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब तक जारी सभी संशोधनों को समाहित करते हुए तैयार किये गये वाणिज्यिक पत्र जारी करने संबंधी दिशानिर्देश तत्काल संदर्भ हेतु नीचे प्रस्तुत हैं।

## 2. वाणिज्यिक पत्र के पात्र जारीकर्ता

- 2.1. कंपनियाँ, प्राथमिक व्यापारी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के तहत (नीचे पैराग्राफ 6.2 में पारिभाषित किए अनुसार) अल्पावधि संसाधन जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है; वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये पात्र हैं।
- 2.2. एक कंपनी वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये पात्र है बशर्ते कि : (क) लेखापरीक्षित अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार कंपनी की वास्तविक स्वाधिकृत निधि चार करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये; (ख) कंपनी को बैंक/बैंकों या अखिल भारतीय वित्तीय संस्था/संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी मंजूर की गयी हो; और (ग) कंपनी के उधार संबंधी खाते को वित्त प्रदान करने वाले बैंक/बैंकों/संस्था/संस्थाओं द्वारा मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

## 3. रेटिंग अपेक्षा

सभी पात्र प्रतिभागी वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज़ ऑफ इंडिया लि. (क्रिसिल) या इन्वेस्टमेंट इन्फार्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (आई.सी.आर.ए.) या क्रेडिट एनालेसिस एंड रिसर्च लि. (केअर) या एफ.आई.टी.सी.एच. रेटिंग्स इंडिया प्रा.लि. या इस प्रयोजन के लिये समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेंगे। न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग "ए-2" होनी चाहिए (सेबी द्वारा निर्धारित रेटिंग चिह्न और परिभाषा के अनुसार)। वाणिज्यिक पत्र जारी करने के समय जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार प्राप्त की गई रेटिंग वर्तमान समय की है और इसकी समीक्षा लंबित नहीं है।

## परिपक्वता

4. वाणिज्यिक पत्र निर्गम की तारीख से न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिये जारी किये जा सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता की तारीख जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग की वैधता की तारीख से अधिक नहीं होनी चाहिये।
5. **मूल्यवर्ग**  
वाणिज्यिक पत्र 5 लाख रु. के मूल्यवर्ग या उसके गुणजों में जारी किये जा सकते हैं। किसी एक निवेशक द्वारा निवेशित राशि (अंकित मूल्य) 5 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिये।
6. **वाणिज्यिक पत्र जारी करने की सीमा और राशि**
  - 6.1. वाणिज्यिक पत्र 'स्टैंड अलोन' उत्पाद के रूप में जारी किया जा सकता है। किसी जारीकर्ता द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्रों की समग्र राशि इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा या विनिर्दिष्ट रेटिंग के लिये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दर्शायी गयी मात्रा, जो भी कम हो, के भीतर होनी चाहिये। तथापि, बैंक और वित्तीय संस्थाओं को वाणिज्यिक पत्रों सहित वित्तपोषण करने वाली कंपनियों के संसाधन ढांचे को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजी सीमाओं को निर्धारित करने के लिये लचीलापन उपलब्ध रहेगा।
  - 6.2. कोई वित्तीय संस्था बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी तथा समय-समय पर संशोधित, वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदण्डों पर मास्टर परिपत्र में निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती है।
  - 6.3. जारी किए जाने वाले प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि जारीकर्ता द्वारा अभिदान के लिए इश्यू खोलने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर जुटाई जानी चाहिये। वाणिज्यिक पत्र एक दिन या विभिन्न तारीखों को टुकड़ों में जारी किये जा सकते हैं बशर्ते कि विभिन्न तारीखों को जारी किये जाने की स्थिति में प्रत्येक वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता की तारीख समान होगी।
  - 6.4. नवीकरण सहित वाणिज्यिक पत्रों के प्रत्येक निर्गम को एक नये निर्गम के रूप में माना जाना चाहिए।

## 7. जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आइ.पी.ए.)

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये केवल अनुसूचित बैंक ही आइ.पी.ए. के रूप में कार्य कर सकता है ।

## 8. वाणिज्यिक पत्र में निवेश

वाणिज्यिक पत्र व्यक्तियों, बैंकिंग कंपनियों, भारत में पंजीकृत या निगमित अन्य कार्पोरेट निकायों और गैर-निगमित निकायों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी संस्थागत निवेशकों को जारी किये जा सकते हैं और उनके द्वारा रखे जा सकते हैं । तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उनके लिये निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिये ।

## 9. वाणिज्यिक पत्र में कारोबार

वाणिज्यिक पत्रों में काउंटर पर सभी कारोबार फिमडा रिपोर्टिंग मंच को कारोबार से 15 मिनट के भीतर सूचित किए जाने चाहिए ।

## 10. निर्गम के प्रकार

10.1. वाणिज्यिक पत्र वचनपत्र (अनुसूची -1) के रूप में या सेबी द्वारा अनुमोदित और उसके पास पंजीकृत किसी भी निक्षेपागार के माध्यम से डीमैट रूप में जारी किया जा सकता है ।

10.2. वाणिज्यिक पत्र अंकित मूल्य से घटे हुए मूल्य पर जारी किया जायेगा जिसका निर्धारण जारीकर्ता द्वारा किया जायेगा ।

10.3. वाणिज्यिक पत्र का कोई भी जारीकर्ता निर्गम को हामीदारी के तहत या सह-स्वीकार्य रूप में जारी नहीं करेगा ।

## 11. डीमैट रूप को वरीयता

यद्यपि जारीकर्ता और अभिदाता दोनों के लिये विकल्प मौजूद है कि वे वाणिज्यिक पत्र को कागज रहित प्रारूप में या भौतिक प्रारूप में जारी करे/रखें, फिर भी जारीकर्ताओं और अभिदाताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे केवल इसके कागज रहित प्रारूप को जारी करने/रखने को तरजीह दें और उस पर अधिक भरोसा करें । तथापि, 30 जून 2001 से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे वाणिज्यिक पत्रों में नये निवेश कागज रहित प्रारूप में करें और उन्हें उसी रूप में धारित करें ।

## 12. वाणिज्यिक पत्रों का भुगतान

वाणिज्यिक पत्र में प्रारंभिक निवेशक, वाणिज्यिक पत्र के बट्टागत मूल्य का जारीकर्ता और भुगतान एजेंट के माध्यम से जारीकर्ता के खाते में एक रेखांकित चेक द्वारा भुगतान करेगा। वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता पर, जब वाणिज्यिक पत्र भौतिक रूप में रखा गया हो, वाणिज्यिक पत्र का धारक जारीकर्ता और भुगतान एजेंट से माध्यम से जारीकर्ता को भुगतान के लिये लिखत प्रस्तुत करेगा। तथापि, कागज रहित रूप में वाणिज्यिक पत्र धारण करने की स्थिति में वाणिज्यिक पत्र का धारक निक्षेपागार के जरिए इसे भुनायेगा और जारीकर्ता एवं भुगतान एजेंट से भुगतान प्राप्त करेगा।

## 13. आपाती सुविधा

13.1. वाणिज्यिक पत्र चूंकि 'स्टैंड अलोन' उत्पाद है इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिये किसी भी रूप में यह बाध्यकारी नहीं होगा कि वे वाणिज्यिक पत्रों के जारीकर्ताओं को 'स्टैंड बाई सुविधा' मुहैया कराये। तथापि, बैंक अपने वाणिज्यिक अधिनर्णियन के आधार पर तथा यथालागू विवेकशील मानदंड के अध्यक्षीन तथा अपने बोर्डों के विशिष्ट अनुमोदन से वाणिज्यिक पत्रों के किसी भी निर्गम हेतु आपातिक सहायता/ऋण के रूप में ऋण-वृद्धि करने, बैंकस्टॉप सुविधा आदि का प्रावधान कर सकता है।

13.2. कार्पोरेट सहित गैर-बैंकिंग संस्थायें भी वाणिज्यिक निर्गम के लिये ऋणवृद्धि हेतु शर्तरहित और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान कर सकती है बशर्ते:

(i) वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये निर्गमकर्ता निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करता हो;

(ii) गारंटीदाता की क्रेडिट रेटिंग अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारीकर्ता को दे गई रेटिंग से एक पायदान ऊंची हो; और

(iii) वाणिज्यिक पत्र के लिये पेश किए गए दस्तावेज में गारंटीदाता कंपनी की नेटवर्थ, उन कंपनियों के नाम जिन्हें इसी प्रकार की गारंटी गारंटीदाता ने प्रदान की है, गारंटीदाता कंपनी द्वारा पेश की गई गारंटियों का विस्तार और गारंटी लागू करने की स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख हो।

## 14. निर्गम के लिये प्रक्रिया

प्रत्येक जारीकर्ता वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने के लिये एक जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आई.पी.ए.) नियुक्त करेगा। जारीकर्ता मानक बाजार प्रथाओं के अनुरूप अपने संभाव्य निवेशकों को अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा करेगा। निवेशक और जारीकर्ता के बीच सौदे का विनिमय हो जाने के पश्चात् जारीकर्ता कंपनी निवेशक को या तो प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र जारी करेगी अथवा निक्षेपागार में खोले गये निवेशक के

खाते में वाणिज्यिक पत्र को जमा करने की व्यवस्था करेगी। निवेशकों को आई.पी.ए. प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान की जायेगी जिसका आशय होगा कि जारीकर्ता का आई.पी.ए. के साथ एक वैध करार है और दस्तावेज वास्तविक है। (अनुसूची II)।

#### 15. भूमिका और उत्तरदायित्व

जारीकर्ता, जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आई.पी.ए.) और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

##### (क) जारीकर्ता

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये प्रक्रिया का सरलीकरण होने के कारण जारीकर्ता के पास अब और अधिक लचीलापन है। तथापि, जारीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाणिज्यिक पत्र जारी करने के दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन हो।

##### (ख) जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आई.पी.ए.)

(i) आई.पी.ए. यह सुनिश्चित करेगा कि जारीकर्ता के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है और वाणिज्यिक पत्रों को जारी करके जुटायी गयी राशि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा विशिष्ट रेटिंग के लिये उल्लिखित मात्रा या उसके निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा, जो भी कम हो, के भीतर है।

(ii) आई.पी.ए. जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजों नामतः निदेशक मंडल का संकल्प, प्राधिकृत कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षरों (जब वाणिज्यिक पत्र भौतिक रूप में हो) की जांच करेगा और एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सभी दस्तावेज वास्तविक हैं। वह यह भी प्रमाणित करेगा कि उसका जारीकर्ता के साथ वैध करार है। (अनुसूची -II)

(iii) आई.पी.ए. द्वारा सत्यापित मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ आई.पी.ए. अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(iv) आईपीए के रूप में कार्यरत सभी अनुसूचित बैंक वाणिज्य पत्र जारी करने का ब्योरा, सीपी जारी करने की तारीख से दो दिन के भीतर ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) माइयूल पर प्रस्तुत करेगा।

**(ग) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी**

(i) वाणिज्यिक पत्रों की रेटिंग के लिये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर पूंजी बाजार लिखतों की रेटिंग के लिये सेबी द्वारा निर्धारित आचार संहिता लागू होगी ।

(ii) इसके अलावा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अब से जारीकर्ता की सामर्थ्य के अनुसार दृष्टिकोण बनाते हुये रेटिंग की वैधता अवधि निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त होगा । तदनुसार, रेटिंग करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्पष्ट रूप से उस रेटिंग की समीक्षा करने की तारीख का उल्लेख करेगी ।

(iii) यद्यपि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग की वैधता अवधि निर्धारित कर सकती है तथापि उन्हें जारीकर्ताओं की रेटिंग की नियमित अंतरालों पर उनके ट्रेक रिकार्ड के परिप्रेक्ष्य में निकट से निगरानी करनी होगी और उन्हें अपने प्रकाशनों और वेबसाइट के जरिए रेटिंग्स में किये गये परिवर्तनों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी ।

**16. दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया**

16.1. वाणिज्यिक पत्रों के परिचालन में लचीलापन और उसकी सुचारू कार्यप्रणाली के लिये निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (फिमडा), भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से किसी मानक प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण का निर्धारण कर सकता है जिसका अनुपालन प्रतिभागियों को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप करना होगा। जारीकर्ता/आई.पी.ए. इस संबंध में फिमडा द्वारा 5 जुलाई 2001 को जारी किये गये विस्तृत दिशानिर्देश देखें ।

16.2. इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जा सकता है और इसमें संस्था द्वारा वाणिज्यिक पत्र बाजार में लेनदेन करने पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल हो सकता है ।

**17. वाणिज्यिक पत्र बाज़ार में चूक**

वाणिज्यिक पत्रों के मोचन में होने वाली चूकों की निगरानी करने के लिये आई.पी.ए. के रूप में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वाणिज्यिक पत्रों के चुकौती में चूक होने पर तत्संबंधी पूर्ण विवरण अनुलग्नक -I में दिये गये प्रारूप में मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 पर तत्काल सूचित करें ।

**18. कुछ अन्य निर्देशों का लागू न होना**

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि की स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेशन,



1998 में अंतर्निहित कोई भी तथ्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होगा जहां तक कि यह इन दिशानिर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम द्वारा जमाराशियों की स्वीकार्यता से संबंधित है ।

19. इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषा अनुलग्नक-II में दी गई है।

अनुसूची - I  
(पैरा 10.1 देखें)

उस राज्य की मुहर  
लगायी जाय जहाँ इसे  
जारी किया जाता है

जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम

क्रम सं.

\_\_\_\_\_ में जारी किया गया। जारी करने की तारीख \_\_\_\_\_  
(स्थान)

परिपक्वता की तिथि \_\_\_\_\_ माफी अवधि रहित ।

(यदि यह तिथि किसी अवकाश के दिन आती हो तो भुगतान उसके ठीक पहले आने वाले  
कार्य दिवस को किया जाएगा)

प्राप्त मूल्य के लिए \_\_\_\_\_ एतद्वारा \_\_\_\_\_  
(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम) (निदेशक

\_\_\_\_\_ को या उसके आदेश पर \_\_\_\_\_  
का नाम) (जारीकर्ता और भुगतान एजेंट का नाम)

को यह वाणिज्यिक पत्र प्रस्तुत करने और अभ्यर्पित करने पर \_\_\_\_\_

रु. (शब्दों में) की राशि उपर्युक्त परिपक्वता तिथि को अदा करने का वचन देती है ।

\_\_\_\_\_ के लिये और उसकी ओर से ।

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

इस वाणिज्यिक पत्र पर किये जाने वाले सभी पृष्ठांकन स्पष्ट और सुभिन्न होने चाहिए

प्रत्येक पृष्ठांकन निर्धारित स्थान पर ही लिखा जाना चाहिए

----- को या उनके आदेश

(अंतरिती का नाम)

पर इसमें उल्लिखित राशि अदा करें

के लिए और की ओर से

---

(अंतरणकर्ता का नाम)

---

- |    |   |
|----|---|
| 1. | " |
| 2. | " |
| 3. | " |
| 4. | " |
| 5. | " |
| 6. | " |
| 7. | " |
| 8. | " |

अनुसूची II  
(पैरा 14 देखें)  
एवं (15(ख)(ii))

**प्रमाणपत्र**

हमारे पास ----- के साथ निष्पादित वैध आईपीए करार है ।  
(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

2. हमने ----- द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ अर्थात बोर्ड संकल्प और  
(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

साख निधारण एजेंसी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र का सत्यापन किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि ये दस्तावेज़ सही हैं । मूल प्रलेखों की सत्यापित प्रतियां हमारी अभिरक्षा में रखी गई हैं ।

3. \* हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि संलग्न वाणिज्यिक पत्र क्रम सं -----  
दिनांक ----- जो रु ----- ( ----- रुपये) के लिए है,  
(शब्दों में)

के निष्पादनकर्ताओं के हस्ताक्षर ----- के द्वारा प्रस्तुत नमूना हस्ताक्षरों  
(जारीकर्ता कंपनी/ संस्था का नाम)

से मेल खाते हैं ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
(जारीकर्ता और भुगतान कर्ता एजेंट का नाम और पता)

स्थान:

दिनांक:

\*(भौतिक रूप में जारी वाणिज्यिक पत्र पर लागू)



**परिभाषाएं**

इन दिशानिर्देशों में जब तक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक:

(क) "बैंक" या "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में याथा परिभाषित बैंकिंग कंपनी या उसके खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में क्रमशः याथा परिभाषित "तदनुरूपी नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" या "सहायक बैंक" जिसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में याथा परिभाषित "सहाकारी बैंक" भी शामिल है।

(ख) "अनुसूचित बैंक" का तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंक।

(ग) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एफआई)" का तात्पर्य हैं वे वित्तीय संस्थाएं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सावधि धन, सावधि जमा राशियों, जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्र और अंतरकंपनी जमाराशियों, जो भी लागू हों, द्वारा समग्र सीमा के अंदर संसाधन जुटाने के लिए विशिष्ट रूप से अनुमति दी गई है।

(घ) "प्राथमिक व्यापारी" से अभिप्रेत है ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो 29 मार्च 1995 के समय समय पर याथा संशोधित "सरकारी प्रतिभूति बज़ार में प्रथमिक व्यापारी संबंधी दिशानिर्देश" के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारी होने के संबंध में जारी वैध आधार पत्र का धारण करती हो।

(ङ) "कापोरेट" या "कंपनी" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I(एए) यथा परिभाषित कंपनी, मगर इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जिसे वर्तमान में किसी कानून के अंतर्गत बंद किया जा रहा है।

(च) "गैर बैंकिंग कंपनी" का तात्पर्य है बैंकिंग कंपनी से इतर कंपनी।

(छ) "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी" से अभिप्रेत है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I (एसफ) में यथा परिभाषित कंपनी।

(ज) "कार्यशील पूंजीगत सीमा" का तात्पर्य है कुल सीमाएं जिनमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक या अधिक बैंकों /एफआई द्वारा बिलों की खरीद / डिस्काउंट द्वारा प्राप्त राशियां शामिल हैं।

(झ) "मूर्त निवल मालियत" से अभिप्रेत है कंपनी के अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार चुकता पूंजी सह मुक्त प्रारक्षित निधियां (शेयर प्रीमियम खाते में धारित शेष राशियां, पूंजी और डिबंजरो के मोचन से प्राप्त प्रारक्षित निधियां और ऐसी अन्य प्रारक्षित निधि शामिल हैं जिनका सृजन भविष्य में आनेवाली किसी देयता की चुकौती के लिए अथवा परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए अथवा अशोध्य ऋण अथवा परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा आरक्षित निधियों के लिए न किया

गया हो) जिसमें से हानि की संचित शेष राशि, आस्थागित राजस्व व्यय की शेष राशि तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को घटाया गया हो ।

(ज) इसमें प्रयुक्त लेकिन इसमें अपरिभाषित और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है ।

## समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	संदर्भ सं.	तारीख	विषय
1.	आइईसीडी.सं.पीएमडी.15/87 सीपी/89-90	3 जनवरी 1990	वाणिज्य पत्र जारी करना (सीपी)
2.	आइईसीडी.सं.पीएमडी.19/87 सीपी/89-90	23 जनवरी 1990	वाणिज्य पत्र जारी करना (सीपी)
3.	आइईसीडी.सं.पीएमडी.28/87 सीपी/89-90	24 अप्रैल 1990	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
4.	आइईसीडी.सं.पीएमडी.1/ 08.15.01/93-94	2 जुलाई 1990	आढतिया सेवाएँ उपलब्ध कराने के प्रावधान पर दिशानिर्देश
5.	आइईसीडी.सं.पीएमडी.2/87 सीपी/90-91	7 जुलाई 1990	वाणिज्य पत्र (सीपी) - वर्तमान मुद्दों का नवीकरण
6.	आइईसीडी.सं.पीएमडी.57/87 सीपी/90-91	30 मई 1991	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
7.	आइईसीडी.सं.16/पीएमडी/87 सीपी/-91/92	20 अगस्त 1991	वाणिज्य पत्र जारी करना (सीपी)
8.	आइईसीडी.सं.39/पीएमडी/87 सीपी/-91/92	20 दिसंबर 1991	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
9.	आइईसीडी.सं.49/सीसी एण्ड एमआइएस/87/91/92	7 फरवरी 1992	वाणिज्य पत्र जारी करना (सीपी) - विवरणियों का पुस्तुती करण
10.	आइईसीडी.सं. 63/ 08.15.01/91- 92	13 मई 1992	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
11.	आइईसीडी.सं. 34/ 08.15.01/92- 93	19 मई 1993	वाणिज्य पत्र (सीपी) - स्टॉम्प ड्यूटी लागू करना
12.	आइसीडी.सं.13/ 08.15.01/93- 94	5 अक्टूबर 1993	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
13.	आइईसीडी.सं.17/ 08.15.01/93- 94	18 अक्टूबर 1993	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
14.	आइईसीडी.सं.25/ 08.15.01/93- 94	17 दिसंबर 1993	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन
15.	आइसीडी.सं.19/ 08.15.01/94- 95	20 अक्टूबर 1994	वाणिज्य पत्र - वैकल्पिक व्यवस्था
16.	आइईसीडी.सं.28/ 08.15.01/95- 96	20 जून 1996	वाणिज्य पत्र (सीपी)
17.	आइईसीडी.सं.3/ 08.15.01/96-97	25 जुलाई 1996	वाणिज्य पत्र (सीपी) - निर्देशों में संशोधन



18.	आइईसीडी.सं.14/ 08.15.01/96-97	5 नवंबर 1996	वाणिज्य पत्र
19.	आइईसीडी.सं.25/ 08.15.01/96-97	15 अप्रैल 1997	वाणिज्य पत्र
20.	आइईसीडी.सं.14/ 08.15.01/97-98	27 अक्टूबर 1997	वाणिज्य पत्र
21.	आइईसीडी.सं.43/ 08.15.01/97-98	25 मई 1998	वाणिज्य पत्र
22.	आइईसीडी.सं.48/ 07.01.279/2000-01	6 जुलाई 2000	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश
23.	आइईसीडी.सं.15/ 08.15.01/2000-01	30 अप्रैल 2001	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश
24.	आइईसीडी.सं.2/ 08.15.01/2001-02	23 जुलाई 2001	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश
25.	आइईसीडी.सं.11/ 08.15.01/2002-03	12 नवंबर 2002	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश
26.	आइईसीडी.सं.19/ 08.15.01/2002-03	30 अप्रैल 2003	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश
27.	आइईसीडी.सं. / 08.15.01/2003-04	19 अगस्त 2003	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश - वाणिज्य पत्र बाजार में दोष
28.	एमपीडी.सं.251/ 07.01.279/2004-05	1 जुलाई 2004	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश
29.	एमपीडी.सं.258/ 07.01.279/2004-05	26 अक्टूबर 2004	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए दिशानिदेश
30.	एमपीडी.सं.261/ 07.01.279/2004-05	13 अप्रैल 2005	वाणिज्य पत्र की रिपोर्टिंग - एनडीएस मंच पर जारी करना
31.	एफएमडी.सं.2153/ 02.02.010/2009-10	5 मार्च 2010	वाणिज्य पत्र जारी करने की रिपोर्टिंग - रिटर्न ऑनलाइन भरने की प्रणाली
32.	आइडीएमडी.डीओडी.11/ 11.08.36/2009-10	30 जून 2010	जमा प्रमाण पत्रों और वाणिज्य पत्रों में काउंटर पर लेनदेन की रिपोर्टिंग
33.	एफएमडी.सं.1272/02.02.010/ 2011-12	3 जनवरी 2012	वाणिज्य पेपर्स जारी करने की रिपोर्टिंग – ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम